

प्रेस नोट दिनांक 27.07.2021 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

हत्या करने की नियत से चाकू से गला काटने वाले दो अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त चाकू

बरामद थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में सुधीर कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा दिनांक 26.07.2021 को थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति जिसके गले को रेत कर मरा समझ कर अचेत अवस्था में छोड़कर भाग जाने वाले अज्ञात अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगणों को दिनांक 27.07.2021 समय 15.30 स्थान रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 के सीढ़ी के नीचे से गिरफ्तार किया गया एवं उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व अभियुक्त के घटना के समय पहने हुए कपड़ों की बरामदगी किया गया।

अपराध विवरण-

दिनांक 26.07.2021 को वादी मुकदमा श्री प्रवीन पासवान पुत्र स्व० छेदी पासवान निवासी नन्दानगर दरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर द्वारा एक लिखित तहरीर दिया गया कि वार्ड संख्या 5 के अंतर्गत आर्मी पब्लिक बाउण्ड्री से सटे निकट रेलवे क्रासिंग छावनी के पास एक अज्ञात व्यक्ति जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है, गम्भीर अवस्था में पड़ा मिला। जिसे पुलिस व जनता के सहयोग से इलाज हेतु मेडिकल कालेज गोरखपुर भेजा गया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 484/21 धारा 324 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० श्री सुनील कुमार गुप्ता को सुपुर्द किया गया एवं घटना के त्वरित अनावरण हेतु थाना स्थानीय से टीम गठित कर लगाया गया। मजरूब के जेब से मिले कागज के टुकड़े पर अंकित मोबाइल नं० से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि मजरूब का नाम फरेन्दर शर्मा पुत्र स्व० शम्भू शर्मा निवासी पूर्वी करगहिया थाना बेतिया मुफस्सिर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार है तथा मजरूब के भाई धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा बताया गया कि मेरे भाई फरेन्दर की पत्नी प्रीति अपने चार बच्चों व शशिकान्त नाम के पुरुष प्रेमी के साथ गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन के पास किराये के मकान में एक माह से रह रही है। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम को लगाया गया। मजरूब फरेन्दर के कमरे पर पहुंचने पर ताला बन्द मिला। तत्पश्चात आस पास पूछताछ किया गया तो जानकारी हुआ कि शशिकान्त व प्रीति अपने बच्चों के साथ रात में ही कहीं चली गयी है। जिसकी तलाश सुरागरसी पतारसी की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन गोरखपुर के पास से शशिकान्त तिवारी पुत्र विरेन्द्र तिवारी निवासी भसुरारी थाना शिकारपुर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार व प्रीति पत्नी फरेन्दर शर्मा पुत्र स्व० शम्भू शर्मा निवासी पूर्वी करगहिया थाना बेतिया मुफस्सिर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उक्त दोनों द्वारा मजरूब फरेन्दर शर्मा उपरोक्त जो उनके प्रेम सम्बन्ध में बाधा उत्पन्न कर रहा था, को योजना के तहत बिहार से छावनी रेलवे स्टेशन के पास किराये के मकान पर एक माह पूर्व से रहने लगे और मौका पाकर मजरूब को दारू पिला कर अचेत अवस्था में दवा कराने के बहाने छावनी रेलवे स्टेशन के पास सूनसान स्थान पर मजरूब की हत्या करने की नियत से गर्दन

को चाकू से रेत कर मरा समझ कर शशिकान्त व प्रीति वहाँ से भाग गये। अभियुक्तगणों की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व अभियुक्त शशिकान्त के घटना के समय पहने हुए कपड़ों को कब्जा पुलिस में लेकर घटना का अंदर 24 घण्टे सफल अनावरण किया गया एवं धारा 307 भादवि में तरमीम किया गया।

अपराधिक इतिहास:-

1. शशिकान्त तिवारी पुत्र विरेन्द्र तिवारी निवासी भसुरारी थाना शिकारपुर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार
2. प्रीति पत्नी फरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० शम्भू शर्मा निवासी पूर्वी करगहिया थाना बेतिया मुफस्सिर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

➤ मु०अ०सं०- 484/2021 धारा- 307 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान/समय/बरामदगी-

रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 के सीढ़ी के नीचे, दिनांक- 27.07.2021 समय 15.30 / बरामदगी – घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू व घटना के समय अभियुक्त के पहने हुए कपड़े

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. वरिष्ठ उ०नि० श्री प्रविन्द कुमार राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ०नि० श्री सुनील कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी एयरफोर्स थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. उ०नि० श्री अरविन्द कुमार सिंह चौकी प्रभारी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. हे०का० रमेश राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. हे०का० धीरज कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
7. का० मनोज कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
8. का० अवधेश कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
9. म०का० नीतू थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर